



सत्यमेव जयते



पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार | **The Patent Office, Government Of India**
पेटेंट प्रमाण पत्र | **Patent Certificate**

(पेटेंट नियमावली का नियम 74) | (Rule 74 of The Patents Rules)

पेटेंट सं./ Patent No. : 549865

आवेदन सं./ Application No. : 202411010268

फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 14/02/2024

पेटेंटी / Patentee : PANJAB UNIVERSITY, CHANDIGARH

आविष्कारकों का नाम /Name of Inventor(s) :
1.DR. RAMESH KATARIA 2.KUSHAL ARYA 3.AJAY KUMAR
4.DR. SURINDER SINGH 5.DR. RAVINDER KUMAR 6.PROF.
S.K. MEHTA 7.DR. VINOD KUMAR

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित **A COMPOSITE OF ZN-MOF@RGO AS A CATALYST FOR EFFICIENT DYE DEGRADATION AND THE PREPARATION METHOD THEREOF** नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख फरवरी 2024 के चौदहवें दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुवत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled **A COMPOSITE OF ZN-MOF@RGO AS A CATALYST FOR EFFICIENT DYE DEGRADATION AND THE PREPARATION METHOD THEREOF** as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 14th day of February 2024 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.



(Signature)
पेटेंट नियंत्रक
Controller of Patents

अनुदान की तारीख : 09/09/2024
Date of Grant :

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, फरवरी 2026 के चौदहवें दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।
Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall / has fallen due on 14th day of February 2026 and on the same day in every year thereafter.